

गोगाबील सामुदायिक रज़िर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोगाबील को बिहार का पहला सामुदायिक रज़िर्व घोषित किया गया है जो बिहार का **15वाँ संरक्षित क्षेत्र (Protected Area)** भी है।



प्रमुख बंदि:

- गोगाबील बिहार के कटहिन ज़िले में स्थित है जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण एवं पूरव में गंगा नदी है।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के इंडियन बर्ड कंज़र्वेशन नेटवर्क द्वारा गोगाबील को वर्ष 1990 में एक बंद क्षेत्र (Closed Area) के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- इस बंद क्षेत्र (Closed Area) की स्थिति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया।
- इंडियन बर्ड कंज़र्वेशन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2004 में गोगाबील को बाघार बिल और बलदिया चौर सहित भारत का महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था।
- गोगाबील एक स्थायी जल निकाय है, हालाँकि यह गर्मियों में कुछ हद तक सिकुड़ती है लेकिन कभी पूरी तरह से सूखती नहीं है।
- इस स्थल पर 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से लगभग 30 प्रवासी हैं। इस स्थल पर ब्लैक इबिस, एश्ली स्वॉल श्रिके, जंगल बबलर, बैंक मैना, रेड मुनिया, उत्तरी लापवगि और स्पॉटबिलि डक जैसी अन्य प्रजातियाँ मिलती हैं।
- IUCN द्वारा लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क (Lesser Adjutant Stork) को सुभेद्य (Vulnerable) घोषित किया गया है, वहीं ब्लैक नेकड स्टॉर्क, व्हाइट इबिस और व्हाइट-आईड पोचर्ड को संकटापन्न (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ